

**Tropical Forest Research Institute, Jabalpur organized 20 days (140 hrs)
Certificate Course on “Value addition and marketing of NTFPs (Plant
origin): NTFP Products/ Medicinal Plants”under GSDP-ENVIS**

Tropical Forest Research Institute, Jabalpur organized 20 days (140 hrs) Certificate Course on “Value addition and marketing of NTFPs (Plant origin): NTFP Products/ Medicinal Plants” from 26th February – 17th March, 2020 under Green Skill Development Programme (GSDP) - ENVIS sponsored by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), Government of India, New Delhi. At the outset, Dr. G. Rajeshwar Rao (ARS), Director TFRI welcomed the Chief Guest Shri Purshottam Dhiman, *IFS*, Additional Managing Director, M.P. State Minor Forest Produce (T & D) Co-op. Fed. Ltd., Bhopal (M.P.) by a bouquet. The programme was initiated by lighting the lamp by the Chief Guest, Director of TFRI and other dignitaries.

Dr. Geeta Joshi, Scientist – F, Head of Extension Division and Training- In- Charge elucidated the GSDP and conveyed its purpose to the house. Dr. Nanita Berry, Scientist-E, Head of SFM & AF Division and Training Coordinator briefed about the training schedule consisting of lectures and exposure visits to Industries and farmer's fields and constituting various aspects of NTFPs/ medicinal plants produce. In his address, Dr. G.R. Rao, Director, TFRI welcomed the participants who reached TFRI from different places of Madhya Pradesh. He spoke about the importance of Non-Timber Forest Produce and their exceeding economic value over forest timber. He evoked the trainees to utilize their time at the institute to improve their knowledge on NTFPs/ medicinal plants to the best of their capacity. The Chief Guest, Shri Purshottam Dhiman appreciated the full-fledged course design of the training encompassing sustainable harvesting, processing, value addition, cultivation, entrepreneurship development, value chain and marketing of forest produce. He especially admired the exposure visit and demonstration parts of the training programme to various processing units, small scale Industries, entrepreneurs and farmer's fields. The course book was released by the dignitaries during the inaugural session. The people from diverse fields viz. agricultural, basic sciences, engineering, Vaidya and farmers interested in cultivation, value addition, marketing of NTFPs and entrepreneurship development, took part in the training programme. Dr. Hari Om Saxena, Scientist – D & Course Director compered the inaugural session which was concluded by extension of vote of thanks by Dr. S. Saravanan, Scientist - F.

During the technical sessions of this 20 days training programme, lectures on a wide range of topics viz.collection, non-destructive harvesting, processing, value addition, marketing of NTFP products/ medicinal plants, entrepreneurship development etc were delivered by various scientists and experts. Hands on/ practical demonstrations were provided to the learners by expert teams. Besides, the trainees were exposed to Shree Baidyanath Ayurveda Bhawan Pvt. Ltd., Seoni, Forest Research Centre – Skill Development, Chhindwara for preparation of Mahua and Munga based products, MP Vigyan Sabha's processing unit of Honey, Multi grain products, Mahua based bakery products, Char and Aonla based products, Soap and Bio-gas production units at Harshdiwari, PhalamSampada Producer Company Limited, Tamia, Chhindwara, Indian Institute of Forest Management and Vindhya Herbals (MFP-PARC), Bhopal, Vindhya Amrit, Rehti, Sehore, Agarbatti production unit, Jabalpur, medicinal plants cultivation fields and medicinal plants nurseries and gardens etc. About 60% part of the training was covered by the exposure visits and practical demonstrations.

The training was concluded on 16th March, 2020. During the valedictory session, Dr. Arun Kumar, Head, Genetics and Tree Improvement of TFRI welcomed the Chief Guest ShriPradeep Vashudev, APCCF, Working Plan, Jabalpur (M.P.) with bouquet. The Chief Guest appreciated the efforts of TFRI for successfully organizing the event and all resource persons to enrich the participants on different aspects of NTFP products/ medicinal plants. Shri Pradeep Vashudev distributed the certificates to the participants on the occasion. In the feedback, the participants thanked TFRI for organizing such an excellent and diversified training course on NTFP products/ medicinal plants. They especially appreciated the exposure visit part of training which provided them clear ideas to start an entrepreneur for livelihood. Few of the participants wished to establish their own entrepreneurship based on NTFPs/ medicinal plants.

At the outset of valedictory function, Dr. Hari Om Saxena, Scientist-D and Course Director presented the training report before the august gathering and briefed the activities carried out during the 20 days training programme. During the event, Head of divisions, Scientists, Officers and most of staff of the Institute were present. The programme was successfully conducted by Dr. Hari Om Saxena who also delivered the vote of thanks.

Glimpses of Training programme

Inaugural Session





Lectures by scientists and experts during technical sessions









Exposure visit to processing units and farmer's fields







Valedictory Session



Certificate course conducted under GSDP ends

By Staff Reporter

A 200-hour certificate course conducted under Green Skill Development Program (GSDP), sponsored by Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), Government of India, has been successfully completed on Tuesday at Jabalpur. The officials of this course were...



Guest giving away certificate to participants of Green Skill Development Programme.

supported the need of the participants and management of the course. The officials of this course were... The officials of this course were... The officials of this course were...

अकाष्ठ वन उत्पादों और औषधीय पौधों पर प्रतिभागियों को मिला प्रशिक्षण

उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान में सर्टिफिकेट कोर्स का समापन

जबलपुर (आरएनएन)। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान (टीएफआरआई) में अकाष्ठ वन उत्पादों और औषधीय पौधों पर बीस दिवसीय सर्टिफिकेट कोर्स का समापन हुआ। कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को प्रशिक्षण और प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रशिक्षण निदेशक डॉ. हरिओम सक्सेना ने कार्यक्रम की शुरुआत में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को प्रशिक्षण और प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रशिक्षण निदेशक डॉ. हरिओम सक्सेना ने कार्यक्रम की शुरुआत में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को प्रशिक्षण और प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

एपीसीएफ और फल वन के मुख्य अतिथि ने अकाष्ठ वन उत्पादों की बढ़ती मांग और लोकप्रियता के बारे में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को प्रशिक्षण और प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रशिक्षण निदेशक डॉ. हरिओम सक्सेना ने कार्यक्रम की शुरुआत में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को प्रशिक्षण और प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

6 नई दुनिया जबलपुर, मंगलवार 17 मार्च 2020 जबलपुर सिटी आसपास

वन उत्पाद व औषधीय पौधों की खेती करने 20 युवाओं ने लिया प्रशिक्षण

जबलपुर (नई दुनिया प्रतिनिधि)। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान (टीएफआरआई) में अकाष्ठ वन उत्पाद और औषधीय पौधों की खेती करने का 20 युवाओं ने प्रशिक्षण लिया। संस्थान प्रशासन ने सोमवार को इस 20 दिवसीय सर्टिफिकेट कोर्स के समापन कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों के लिए प्रमाण-पत्र वितरित किए। टीएफआरआई में अकाष्ठ वन उत्पाद के मुख्य संवर्धन और विपणन, अकाष्ठ वन उत्पादों और औषधीय पौधों के संवर्धन में युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। यह कार्यक्रम ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम (जीएसडीपी) के तहत संचालित और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ सीसी) द्वारा प्रायोजित किया गया। मान्य सत्र के मुख्य अतिथि प्रदीप कामरेव ने युवाओं को अकाष्ठ वन उत्पादों की बढ़ती मांग व लोकप्रियता के बारे में बताया। साथ ही



प्रशिक्षण सत्र के समापन कार्यक्रम में प्रतिभागियों को वोट प्रमाण-पत्र। नई दुनिया इसकी उचित खेती, विनाशहीन विवेचन, विपणन और प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया। घटनाओं को जानकारी दी: प्रशिक्षण निदेशक डॉ. हरिओम सक्सेना ने कार्यक्रम की घटनाओं को जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने व्याख्यान और प्रशिक्षण में शामिल विभिन्न दौरे और संस्थान व्यक्तियों के बारे में प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम के अंत में 20 प्रतिभागी विद्यार्थियों व युवाओं के लिए प्रमाण-पत्र बांटे गए। इसके साथ ही यह सत्र समाप्त हुआ। ये रहे शामिल: कार्यक्रम में डॉ. ननिता बेरी, डॉ. गीता जोशी, डॉ. एस सरवजन, डॉ. एस विरवाम, एमके चौधे, प्रणव धर, गणेश फार आदि शामिल रहे।